



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03012024-251113
CG-DL-E-03012024-251113

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 04]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 3, 2024/पौष 13, 1945

No. 04]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 3, 2024/PAUSHA 13, 1945

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2023

सा.का.नि. 05(अ).—राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में सहायक निदेशक (राज्य भागीदारी) और सहायक अनुभाग अधिकारी (राज्य भागीदारी) के पदों पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थातः -

(1) संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ: (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, राज्य भागीदारी प्रभाग (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना: ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (थ) में निर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर - उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होंगे जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और अन्य बातें वह होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता- वह व्यक्ति,

- (1) जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह का अनुबंध किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित है; या
 (2) जिसने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया हो या विवाह का अनुबंध किया हो,

उक्त पदों पर नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे:

परंतु केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति- राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा लिखित में किए गए अनुरोध पर जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति- इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु सीमा छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती हेतु सीमा आयु	सीधी भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षिक और अन्य योग्यताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक निदेशक (राज्य भागीदारी)	9* *2021 - कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा अननुसूचित राजपत्रित समूह-ख	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 8 रु.(47600-151100)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए निर्धारित आयु और शैक्षिक योग्यता प्रोन्नत व्यक्तियों के मामले में लागू होगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का प्रतिशत
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित)

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाना है
(11)
प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के अधिकारी:

क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या
(ii) मूल संवर्ग विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44,900-1,42,400 रुपए) या समतुल्य पदों पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात दो वर्ष की सेवा की हो; और
(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हैं:-
i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में स्नातकोत्तर की डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और
ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों और सरकार या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थानों के अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में तीन वर्ष का अनुभव।
टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि, (अल्पकालिक संविदा सहित), जिसमें केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पूर्व धारित एक अन्य पूर्व-संवर्ग पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।
टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि कोई विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना क्या है	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है
(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
सहायक अनुभाग अधिकारी (राज्य भागीदारी)	7* *2021 कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केंद्रीय सेवा अननुसचिवीय अराजपत्रित ग्रुप बी	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 7 (44900-142400 रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा भी है।

(11)
प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके अधीन अल्पकालिक संविदा भी है
केंद्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों या स्वायत्त या वैधानिक संगठनों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों या विश्वविद्यालयों के अधिकारी:
क) (i) जो मूल संवर्ग या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या
ii) जिन्होंने मूल संवर्ग या विभाग में नियुक्ति के पश्चात वेतन मैट्रिक्स के स्तर 6 में (35,400-112400 रुपए) या समतुल्य पदों पर पांच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और
(ख) जो निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं और अनुभव रखते हैं: -

i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इंजीनियरिंग या चिकित्सा विज्ञान में स्नातक की डिग्री; और

(ii) केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थानों, नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों और सरकार या सरकार से मान्यता प्राप्त संस्थान के अन्य हितधारकों के साथ समन्वय में दो वर्ष का अनुभव।

टिप्पण 1:- प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित), केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्व धारित एक अन्य पूर्व-संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि (अल्पकालिक संविदा सहित) सम्मिलित है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 2:- प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है

[फा. सं. एस-12012/211/2019-एनएचए]

डॉ. बसंत गर्ग, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(National Health Authority)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2023

G.S.R. 05(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment to the posts of Assistant Director (State Partnership) and Assistant Section Officer (State Partnership) in the National Health Authority, Ministry of Health and Family Welfare, namely:-

1. Short title and commencement. – (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, National Health Authority, State Partnership Division (Group B posts) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application - These rules shall apply to the posts specified in column (q) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in pay matrix - The number of post, their classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. Disqualification.— No person, ---

(1) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(2) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax - Where the National Health Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, in consultation with the Union Public Service Commission, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving. - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age- limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	Number of Post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Director (State Partnership)	9* *2021- Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non-Ministerial Gazetted Group 'B'	Level 8 in the pay matrix Rs.47600-151100)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of Recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or by absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation (Including short term contract)

In case of recruitment by promotion or by deputation or by absorption ,grades from which promotion or by deputation or by absorption to be made

(11)

Deputation (including short term contract)

Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or Autonomous or statutory organizations or public sector undertakings or recognised research institutions or Universities:

a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or

(ii) with two years service rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 7 in the pay matrix (Rs. 44,900-1,42,400) or equivalent in the parent cadre department; and

(b) possessing the following educational qualification and experience.

i) Master's degree in any discipline from a recognised University or Institute or a Bachelor's degree in Engineering or Medical sciences from a recognised University or institute; and

ii) three years experience in coordination with the Central Government and State Governments, academic and research institutions, civil society, International development organisations and other stakeholders from a Government or Government recognised institution.

Note 1:- The period of deputation, (including short term contract), including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2:- The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is necessary

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Assistant Section Officer (State Partnership)	7* *2021 Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Non Ministerial Non-Gazetted Group B	Level 7 in the pay matrix (Rs.44900-142400)	Not applicable	Not applicable	Not applicable

(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Deputation (Including short term contract)

(11)
<p><u>Deputation (including short term contract)</u></p> <p>Officers under the Central Government or State Governments or Union territory Administrations or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or recognized research institutions or Universities:</p> <p>a) (i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department; or</p> <p>ii) with five year service rendered after appointment thereto on a regular basis in Level 6 in the pay matrix (Rs. 35,400-112400 or equivalent in the parent cadre department; and</p> <p>(b)possessing the following educational qualifications and experience:-</p> <p>i) Master's degree in any discipline from a recognized University or institute or Bachelors degree in Engineering' or Medical sciences from a recognized University or institute; and</p> <p>(ii) two years experience in coordination with the Central Government and State Governments, academic and research institutions, civil society, international development organisations and other stakeholders from a Government or Government recognized institution.</p> <p>Note 1: The period of deputation (including short term contract), including period of deputation (including short term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.</p> <p>Note 2: The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.</p>

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary

[F. No. S-12012/211/2019-NHA]

Dr. BASANT GARG, Addl. Chief Executive Officer